

## प्रेस नोट दिनांक 18/08/19

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा अपहृत पिकू पुत्र महेन्द्र नि० ताजपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर को अन्दर डेढ घन्टे में सकुशल बरामद कर एक अभियुक्त मन्सूर पुत्र असलूब नि० ग्राम मक्काबांस थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 17/08/19 को मुकदमा वादी नीटू पुत्र महेन्द्र नि० ताजपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर द्वारा दी गयी तहरीर सूचना पर थाना गागलहेडी पर मु०अ०सं० 258/19 धारा 364A भादवि बनाम मन्सूर पुत्र नामालूम नि० मक्काबांस व प्रिंस , काका, नेता द्वारा वादी के भाई पिकू पुत्र महेन्द्र नि० ताजपुरा थाना बेहट जिला सहारनपुर को 80,000 ₹० की मांग करते हुए अपहरण कर ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्काल IC/SI गम्भीर सिंह द्वारा टीम गठन कर उपनि० गुलाब तिवारी , उपनि० गौरव चौहान , कां० 59 सतीश , कां० 296 तरुण शर्मा द्वारा बरामदगी का प्रयास किया गया। पुलिस के अथक प्रयास से अभियुक्त मन्सूर पुत्र असलूब नि० ग्राम मक्काबांस थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर को समय करीब 21.05 बजे भगवानपुर रोड से नन्हेडा वेद बेगमपुर रोड जाने वाले रास्ते बाग आत्माराम पुत्र मूला सिंह नि० ग्राम बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी सहारनपुर के बाग से गिरफ्तार कर अपहृत पिकू उपरोक्त को बाग में बने ट्यूबवैल से सकुशल बरामद किया गया। पुलिस के अथक प्रयास से अपहृत पिकू सकुशल बरामद हुआ तथा रात्रि के समय में उसके 03 साथी 1.सन्दीप उर्फ नेता पुत्र महेन्द्र 2.काका पुत्र मन्नु नि०गण बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी सहारनपुर व 3.प्रिंस नि० गागलहेडी भागने में सफल रहे। जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके से रस्सी व रुमाल जिनके द्वारा अपहृत को बांध कर रखा गया था बरामद की गयी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1.मन्सूर पुत्र असलूब नि० ग्राम मक्काबांस थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

### फरार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1.सन्दीप उर्फ नेता पुत्र महेन्द्र
- 2.काका पुत्र मन्नु नि०गण बहेडी गुर्जर थाना गागलहेडी सहारनपुर
- 3.प्रिंस नि० गागलहेडी

### बरामदगी:-

- 1.रस्सी के दो टुकड़े जिनके द्वारा अपहृत पिकू को बांधकर डाला हुआ था।
- 2.एक रुमाल जिसे अपहृत का मुंह बाधाँ गया था।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

- 1.IC/SI गम्भीर सिंह थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 1-उपनिरी० श्री गुलाब तिवारी थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 2-उपनि० श्री गौरव चौहान थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 3-कां० 59 सतीश थाना गागलहेडी, सहारनपुर
- 4-कां० 296 तरुण शर्मा थाना गागलहेडी, सहारनपुर

## प्रेस नोट

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार जनपद मे वांछित चल रहे अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल निर्देशन मे दिनांक 17/08/2019 को समय 21.15 बजे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मु0अ0स0 652/19 धारा 392 भादवि मे वांछित अभियुक्त युवराज उर्फ गोलू पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द स0पुर को गंगदासपुर भट्टे के पास यात्री प्रतीक्षालय से मोटर साईकिल अपाचे जिसका चैसिस नं0 MD634BE45J2F95972 व इन्जन नं0 BE4FJ2796446 व मोबाईल फोन रियल मी रंग लाल जिसका IMEI NO. 863910049920396 , 863910049920388 व एक अवैध तमंचा .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । जिसके सम्बन्ध मे थाना देवबन्द पर मु0अ0स0 658/19 धारा 3/25 आम्स एक्ट बनाम युवराज उर्फ गोलू पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द स0पुर पंजीकृत किया गया ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. युवराज उर्फ गोलू पुत्र रविन्द्र नि0 ग्राम दुगचाडा थाना देवबन्द स0पुर

### बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर मय दो जिन्दा कारतूस 315 बोर
2. मोटर साईकिल अपाचे जिसका चैसिस नं0 MD634BE45J2F95972 व इन्जन नं0 BE4FJ2796446
3. एक मोबाईल फोन रियल मी रंग लाल जिसका IMEI NO. 863910049920396 , 863910049920388 है

### पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक आनन्द देव मिश्र थाना देवबन्द, स0पुर
2. उ0नि0 धर्मराज यादवथाना देवबन्द, स0पुर
3. उ0नि0 सुबोध कुमारथाना देवबन्द, स0पुर
4. उ0नि0 धीरेन्द्र सिंहथाना देवबन्द, स0पुर
5. है0का0 240 किरणपालथाना देवबन्द, स0पुर
6. का0 1477 मोहनवीरथाना देवबन्द, स0पुर